



## **SARVSRESTH INTERNATIONAL HUMAN RIGHT UNITY AND CRIME CONTROL ORGANIZATION**

### **OBJECTS**

- I. To work in the field of Promotion of Human Right, through Awareness Campaigns, Educational Classes for Teaching Human Rights to all, and to Promote Human Rights for all, Human Rights including Gender Equality Rights, Child Rights, Women Rights, Elderly Rights, Rights for Disabled.  
मानव अधिकार के प्रचार के क्षेत्र में जागरूकता अभियानों के माध्यम से, सभी को मानव अधिकार सिखाने के लिए शैक्षिक कक्षाएं, और सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, बुजुर्ग अधिकार, विकलांगों के अधिकार सहित मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
- II. To work for ensuring that basic human rights are respected everywhere.  
यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि हर जगह बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए।
- III. To cooperate to avoid compromising on human rights for economic or political expediency.  
आर्थिक या राजनीतिक लाभ के लिए मानवाधिकारों से समझौता करने से बचने के लिए सहयोग करना।
- IV. To recognize democratic institutions as a fundamental human right.  
लोकतांत्रिक संस्थाओं को मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देना
- V. To work towards the sovereignty and self-determination of entities with historical, cultural and ecological identity.  
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान वाली संस्थाओं की संप्रभुता और आत्मनिर्णय की दिशा में काम करना।
- VI. To restrict cooperation with governing regimes that violate human right.  
मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाली शासन व्यवस्थाओं के साथ सहयोग को प्रतिबंधित करना।
- VII. To actively engage with the Government of India and other countries to promote human rights education.  
मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।

- VIII. To bring diplomatic and commercial pressures on regimes that violate human rights, to ensure that they respect the basic rights of their citizens.  
मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले शासनों पर राजनयिक और वाणिज्यिक दबाव लाना, यह सुनिश्चित करना कि वे अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का सम्मान करते हैं।
- IX. To keep the interests of disempowered communities foremost in all dealings with countries in which human rights violations occur.  
जिन देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उन देशों के साथ सभी व्यवहारों में अशक्त समुदायों के हितों को सर्वोपरि रखना
- X. To support the end of colonization and press for resolution of colonial conflicts through the UN framework.  
उपनिवेशवाद के अंत का समर्थन करना और संयुक्त राष्ट्र ढांचे के माध्यम से औपनिवेशिक संघर्षों के समाधान के लिए दबाव बनाना।
- XI. To develop a more distinctive and effective role for the International Court of Justice in the field of human rights.  
मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अधिक विशिष्ट और प्रभावी भूमिका विकसित करना।
- XII. To support through the UN framework, democratic and economic reforms in countries coming out of totalitarian control.  
अधिनायकवादी नियंत्रण से बाहर आने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे, लोकतांत्रिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से समर्थन करना।
- XIII. To promote a culture for educating the citizenry that cultivation and promotion of human rights culture is the sine qua non for the smooth functioning of the organs  
of a democratic State and for the kind of development that results into overall development of the society.  
नागरिकों को शिक्षित करने के लिए एक संस्कृति को बढ़ावा देना कि मानव अधिकार संस्कृति की खेती और प्रचार अंगों के सुचारू कामकाज के लिए अनिवार्य है ।  
एक लोकतांत्रिक राज्य और उस तरह के विकास के लिए जिसके परिणामस्वरूप समाज का समग्र विकास होता है।
- XIV. To train the young men and women for facing the challenges of the pluralistic society and the rising conflicts and tensions in the name of particularistic loyalties to caste, religion, region and culture.  
बहुलवादी समाज की चुनौतियों और जाति, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के प्रति विशिष्ट निष्ठा के नाम पर बढ़ते संघर्षों और तनावों का सामना करने के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित करना।

- XV. To study the effects of draconian laws and unlawful use of State's machinery and force by the enforcement agencies.  
प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कठोर कानूनों और राज्य की मशीनरी और बल के गैरकानूनी उपयोग के प्रभावों का अध्ययन करना।
- XVI. To prepare case studies on the rising custodial deaths, killings in encounters and related issues for ensuring that human rights education must address the need of evolving new structures of knowledge and accountability to impart new skills and sensitivities amongst holders of State power so as to make them more responsive to the culture of human rights and values of democracy.  
हिरासत में होने वाली मौतों, मुठभेड़ों में हत्याओं और संबंधित मुद्दों पर केस स्टडी तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानवाधिकार शिक्षा को राज्य सत्ता के धारकों के बीच नए कौशल और संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए ज्ञान और जवाबदेही के नए ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता को संबोधित करना चाहिए ताकि उन्हें बनाया जा सके। मानव अधिकारों की संस्कृति और लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील।
- XVII. To necessitate human rights education to evolve strategies and schemes for tackling such attitudes like employing bonded labour, practicing untouchability, perpetrating sati and help members internalize more humane and egalitarian approach in their social relations.  
बंधुआ मजदूरी, अस्पृश्यता, सती प्रथा को बढ़ावा देने और सदस्यों को अपने सामाजिक संबंधों में अधिक मानवीय और समतावादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करने जैसे दृष्टिकोणों से निपटने के लिए रणनीतियों और योजनाओं को विकसित करने के लिए मानव अधिकार शिक्षा की आवश्यकता है।
- XVIII. To help stop legal social and economic discrimination against women and their exploitation in different ways.  
महिलाओं के खिलाफ कानूनी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव और विभिन्न तरीकों से उनके शोषण को रोकने में मदद करना
- XIX. To promote human rights education as a catalyst in bringing out attitudinal and social change among the management of fireworks, glass, stone crushing and related industries for reducing the prevalence of child labour in these and other hazardous industries to zero.  
इन और अन्य खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के प्रसार को शून्य तक कम करने के लिए आतिशबाजी, कांच, स्टोन क्रशिंग और संबंधित उद्योगों के प्रबंधन के बीच व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक के रूप में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देना।

- XX. To create an environment as well as an understanding that human rights can easily become vulnerable to abuse of various structures and processes of power.  
एक ऐसा वातावरण बनाने के साथ-साथ एक समझ बनाने के लिए कि मानव अधिकार आसानी से विभिन्न संरचनाओं और शक्ति की प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं
- XXI. To ensure comprehensiveness and incorporation of national, regional and international perspectives related to human rights.  
राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और की व्यापकता और समावेश सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण।
- XXII. To study the philosophical and cultural basis and historical perspectives on human rights.  
मानव अधिकारों पर दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- XXIII. To examine the inter-dependence of and linkages between human rights and democracy, pluralism, development, ecological balance, peace and harmony at the national and international levels.  
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों और लोकतंत्र, बहुलवाद, विकास, पारिस्थितिक संतुलन, शांति और सद्भाव की अन्योन्याश्रयता और संबंधों की जांच करना।
- XXIV. To study the historical context, colonialism and post colonialism, post-independence national development, protection regime especially for the weak and marginalized groups including minorities and for women and children.  
ऐतिहासिक संदर्भ, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद के बाद, स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्र विकास, विशेष रूप से सप्ताह के लिए सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों और महिलाओं और बच्चों के अध्ययन के लिए
- XXV. To study and prepare reports on the violation of human rights by the State and its agencies - the police and criminal justice system inconsistent with human rights norms.  
राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट तैयार करना और अध्ययन करना।
- XXVI. To suggest action for violation of rights by armed political groups and terrorists.  
सशस्त्र राजनीतिक समूहों और आतंकवादियों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सुझाव देना।
- XXVII. To work against intra-social violation of rights of the poor and weak by the dominant groups.  
प्रभावशाली समूहों द्वारा गरीबों और कमजोरों के अधिकारों के सामाजिक उल्लंघन के खिलाफ काम करना।

- XXVIII. To effectively work for reducing gender inequalities, exploitations and injustices.  
लैंगिक असमानताओं, शोषण और अन्याय को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना
- XXIX. To provide legal aid and advice for the indigent and weaker sections of the society.  
समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
- XXX. To work in close cooperation with National Human Rights Commission and other Statutory Commissions on Women, Minorities, SC and ST and Linguistic Minorities, NGOs and Media organization's for promoting Human Rights Education.  
मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और भाषाई अल्पसंख्यकों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया संगठनों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य सांविधिक आयोगों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करना
- XXXI. To study the texts, treaties, arrangements and structures innovated by the international community in the post-world war period for the protection of human rights, effect of cold war on the status and functioning of various institutions and structures organized for promotion and protection of human rights.  
मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व युद्ध के बाद की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नवप्रवर्तित ग्रंथों, संधियों, व्यवस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए, मानव के प्रचार और संरक्षण के लिए आयोजित विभिन्न संस्थानों और संरचनाओं की स्थिति और कामकाज पर शीत युद्ध का प्रभाव अधिकार।
- XXXII. To promote the role of developing societies vis-a-vis human rights.  
मानव अधिकारों की तुलना में विकासशील समाजों की भूमिका को बढ़ावा देना।
- XXXIII. To study the causes of success and failure of institutions like UN and its specialized bodies like UNHCR, UNHCHR, UNESCO, WHO, ILO vis-a-vis human rights  
संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट निकायों जैसे UNHCR, UNHCHR, UNESCO, WHO, ILO जैसे मानवाधिकारों की सफलता और विफलता के कारणों का अध्ययन करना।
- XXXIV. To collect data related to the existing educational and training facilities in the areas of human rights and civil liberties in different parts of the world in general and the developing countries in particular for designing a need-based Bachelor's, Master's and Doctoral Programmers in Human Rights and Civil Liberties.  
मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्रों में सामान्य रूप से दुनिया के विभिन्न हिस्सों और विकासशील देशों में मौजूदा शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाओं से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए मानव अधिकारों में आवश्यकता-आधारित स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट प्रोग्रामर को डिजाइन करने के लिए

नागरिक स्वतंत्रताएं।

XXXV. To contribute, through research, training, field activities and the collection, exchange and dissemination of information, to the formulation and implementation of improved policies in the field of crime prevention and control, due regard being paid to the integration of such policies within broader policies for socio-economic change and development, and to the protection of human rights.

अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय गतिविधियों और सूचना के संग्रह, आदान-प्रदान और प्रसार के माध्यम से योगदान करने के लिए, व्यापक नीतियों के भीतर ऐसी नीतियों के एकीकरण के लिए भुगतान किया जा रहा है सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के लिए, और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए।

XXXVI. To promote, conduct, co-ordinate and support research and, in collaboration with the countries concerned, to organize and support field activities with a view to:

अनुसंधान को बढ़ावा देने, संचालित करने, समन्वय करने और समर्थन करने के लिए और संबंधित देशों के सहयोग से, निम्नलिखित की दृष्टि से क्षेत्रीय गतिविधियों को व्यवस्थित और समर्थन करने के लिए:

(i) Establishing a reliable knowledge-and-information base on social problems involving juvenile delinquency and adult criminality, special attention being given to the new, frequently transnational forms of the phenomena;

(1) किशोर अपराध और वयस्क अपराध से जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर एक विश्वसनीय ज्ञान और सूचना आधार स्थापित करना, घटना के नए, अक्सर अंतरराष्ट्रीय रूपों पर विशेष ध्यान देना;

(ii) Identifying appropriate strategies, policies and instruments for the prevention and control of the phenomena so as to contribute to socio- economic development and to promote the protection of human rights;

(2) घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपयुक्त रणनीतियों, नीतियों और उपकरणों की पहचान करना ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके और मानव अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके;

(iii) Designing practical models and systems aimed at support for policy formulation, implementation and evaluation;

(3) नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के समर्थन के उद्देश्य से व्यावहारिक मॉडल और प्रणालियों को डिजाइन करना;

XXXVII. To provide action-oriented research and training relating to the national & United Nations programme for crime prevention and criminal justice;

अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय के लिए राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम से संबंधित कार्रवाई-  
उन्मुख अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करना

XXXVIII. To design and carry out training activities at the interregional level and, at the request of interested persons, at the national level;

अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर और इच्छुक व्यक्तियों के अनुरोध पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण गतिविधियों को डिजाइन और संचालित करने के लिए

XXXIX. To promote the exchange of information by, inter-alia, maintaining an international documentation Centre on criminology and related disciplines to enable the organization to respond to the need of the national and international community for the dissemination of information worldwide and to serve the needs of the national and international institutions and of scholars and other experts requiring such facilities.

सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध विज्ञान और संबंधित विषयों पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र बनाए रखना ताकि संगठन को दुनिया भर में सूचना के प्रसार के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता का जवाब देने और जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और विद्वानों और अन्य विशेषज्ञों को ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

XL. In the pursuit of its objectives, the organization shall carry out. Its activities in close collaboration and co-ordination with other organizations and other bodies within and outside India. Especially with the National and United Nations regional organizations on, the prevention of crime.

अपने उद्देश्यों की खोज में, संगठन पूरा करेगा। भारत के भीतर और बाहर अन्य संगठनों और अन्य निकायों के साथ घनिष्ठ सहयोग और समन्वय में इसकी गतिविधियां। विशेष रूप से राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठनों के साथ, अपराध की रोकथाम पर।